



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

10 फाल्गुन 1945 (श10)  
(सं० पटना 173) पटना, बृहस्पतिवार, 29 फरवरी 2024

---

बिहार विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

28 फरवरी 2024

सं० वि०सं०वि०-03/2024-1073/वि०सं०। “बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2024”, जो बिहार विधान सभा में दिनांक-28 फरवरी, 2024 को पुरःस्थापित हुआ था, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है ।

आदेश से,  
राज कुमार,  
सचिव,  
बिहार विधान सभा, पटना।

[वि०स०वि०-02/2024]

**बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2024**

बिहार राज्य की संचित निधि में से 31 मार्च 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान सेवाओं के लिए शोधन और विनियोग प्राधिकृत करने के लिए विधेयक ।

**भारत-गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-**

**1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।-**

- (1) यह अधिनियम बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2024 कहा जा सकेगा ।
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा ।
- (3) यह 01 अप्रैल 2024 के प्रभाव से प्रवृत्त होगा ।

**2. 31 मार्च 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए बिहार राज्य की संचित निधि में से कुल 282992,32,78,000 (दो लाख बयासी हजार नौ सौ बानवे करोड़ बत्तीस लाख अटहत्तर हजार) रुपये की निकासी।-** बिहार राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लिखित सेवाओं के संबंध में, 31 मार्च 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर शोधन के दौरान आने वाले अनेक भारों की पूर्ति के लिए अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित राशियों से अनधिक राशियाँ, जो कुल 282992,32,78,000 (दो लाख बयासी हजार नौ सौ बानवे करोड़ बत्तीस लाख अटहत्तर हजार) रुपये तक होंगी, शोधित और उपयोजित की जा सकेंगी।

**3. विनियोग ।-** इस अधिनियम द्वारा जिन राशियों को बिहार राज्य की संचित निधि में से शोधित और उपयोजित करने का प्राधिकार दिया गया है, उन्हें 31वीं मार्च 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के संबंध में अनुसूची में उल्लिखित सेवाओं और प्रयोजनों के निमित्त विनियोजित किया जायेगा।

अनुसूची

(धाराएं 2 और 3 देखें)

मांग / विनियोग संख्या	सेवा से संबंधित मांग या विनियोग	राजस्व पूंजी	राशि की अधिसीमा (रूपये)		
			बिहार विधान मंडल द्वारा दिए गए अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
1	2	3	4	5	6
01	कृषि विभाग	राजस्व	33709208000	0	33709208000
		पूंजी	23000000000	0	23000000000
02	पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	राजस्व	16313461000	0	16313461000
		पूंजी	0	0	0
03	भवन निर्माण विभाग	राजस्व	10149962000	0	10149962000
		पूंजी	39976586000	0	39976586000
04	मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	राजस्व	3184973000	0	3184973000
		पूंजी	1487500000	0	1487500000
05	राज्यपाल सचिवालय	राजस्व	0	513186000	513186000
		पूंजी	0	0	0
06	निर्वाचन विभाग	राजस्व	8483252000	0	8483252000
		पूंजी	0	0	0
07	निगरानी विभाग	राजस्व	455971000	0	455971000
		पूंजी	0	0	0
08	कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	राजस्व	2599990000	0	2599990000
		पूंजी	0	0	0
09	सहकारिता विभाग	राजस्व	11918524000	0	11918524000
		पूंजी	175120000	0	175120000
10	उर्जा विभाग	राजस्व	98711280000	0	98711280000
		पूंजी	15515500000	0	15515500000
11	पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	राजस्व	16648961000	0	16648961000
		पूंजी	224000000	0	224000000
12	वित्त विभाग	राजस्व	3203382000	16459609000	19662991000
		पूंजी	7682000000	0	7682000000
13	सूद भुगतान	राजस्व	0	205261966000	205261966000
		पूंजी	0	0	0
14	ऋण अदायगियाँ	राजस्व	0	0	0
		पूंजी	0	223927173000	223927173000
15	पेंशन	राजस्व	317770489000	190806000	317961295000
		पूंजी	0	0	0
16	पंचायती राज विभाग	राजस्व	103898420000	0	103898420000
		पूंजी	6360001000	0	6360001000
17	वाणिज्य-कर विभाग	राजस्व	2379586000	0	2379586000
		पूंजी	0	0	0
18	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	राजस्व	11171989000	0	11171989000
		पूंजी	1330002000	0	1330002000
19	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	राजस्व	8121581000	0	8121581000
		पूंजी	408698000	0	408698000
20	स्वास्थ्य विभाग	राजस्व	142681950000	0	142681950000
		पूंजी	6638984000	0	6638984000
21	शिक्षा विभाग	राजस्व	506908061000	0	506908061000
		पूंजी	19482200000	0	19482200000

## अनुसूची

(घाराएं 2 और 3 देखें)

मांग / विनियोग संख्या	सेवा से संबंधित मांग या विनियोग	राजस्व पूंजी	राशि की अधिसीमा (रुपये)		
			बिहार विधान मंडल द्वारा दिए गए अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
1	2	3	4	5	6
22	गृह विभाग	राजस्व	157767641000	0	157767641000
		पूंजी	5470665000	0	5470665000
23	उद्योग विभाग	राजस्व	13819864000	0	13819864000
		पूंजी	4511000000	0	4511000000
24	सूचना एवं जनसंपर्क विभाग	राजस्व	2542397000	0	2542397000
		पूंजी	0	0	0
25	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	राजस्व	1284363000	0	1284363000
		पूंजी	1500000000	0	1500000000
26	श्रम संसाधन विभाग	राजस्व	9924083000	0	9924083000
		पूंजी	2340100000	0	2340100000
27	विधि विभाग	राजस्व	13151323000	0	13151323000
		पूंजी	0	0	0
28	उच्च न्यायालय	राजस्व	0	2491370000	2491370000
		पूंजी	0	0	0
29	खान एवं भूतत्व विभाग	राजस्व	631143000	0	631143000
		पूंजी	0	0	0
30	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	राजस्व	3054089000	0	3054089000
		पूंजी	3432500000	0	3432500000
31	संसदीय कार्य विभाग	राजस्व	98711000	0	98711000
		पूंजी	0	0	0
32	विधान मंडल	राजस्व	2843012000	18120000	2861132000
		पूंजी	0	0	0
33	सामान्य प्रशासन विभाग	राजस्व	10251146000	77007000	10328153000
		पूंजी	0	0	0
34	बिहार लोक सेवा आयोग	राजस्व	0	989182000	989182000
		पूंजी	0	0	0
35	योजना एवं विकास विभाग	राजस्व	6010022000	0	6010022000
		पूंजी	16154813000	0	16154813000
36	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	राजस्व	9456719000	0	9456719000
		पूंजी	9025500000	0	9025500000
37	ग्रामीण कार्य विभाग	राजस्व	21631838000	0	21631838000
		पूंजी	73691300000	0	73691300000
38	मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग	राजस्व	6665528000	0	6665528000
		पूंजी	80000000	0	80000000
39	आपदा प्रबंधन विभाग	राजस्व	94428521000	0	94428521000
		पूंजी	1000000000	0	1000000000
40	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	राजस्व	18504829000	0	18504829000
		पूंजी	210002000	0	210002000
41	पथ निर्माण विभाग	राजस्व	19087456000	0	19087456000
		पूंजी	37940600000	0	37940600000
42	ग्रामीण विकास विभाग	राजस्व	142467115000	0	142467115000
		पूंजी	500000000	0	500000000

अनुसूची

(धाराएं 2 और 3 देखें)

मांग / विनियोग संख्या	सेवा से संबंधित मांग या विनियोग	राजस्व पूंजी	राशि की अधिसीमा (रूपये)		
			बिहार विधान मंडल द्वारा दिए गए अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
1	2	3	4	5	6
43	विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग	राजस्व	7223098000	0	7223098000
		पूंजी	3500000000	0	3500000000
44	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	राजस्व	18017284000	0	18017284000
		पूंजी	10000000	0	10000000
45	ग्रामा उद्योग विभाग	राजस्व	1237995000	0	1237995000
		पूंजी	0	0	0
46	पर्यटन विभाग	राजस्व	2004352000	0	2004352000
		पूंजी	2620000000	0	2620000000
47	परिवहन विभाग	राजस्व	4389606000	0	4389606000
		पूंजी	125000000	0	125000000
48	नगर विकास एवं आवास विभाग	राजस्व	111842244000	0	111842244000
		पूंजी	1145000000	0	1145000000
49	जल संसाधन विभाग	राजस्व	12191179000	0	12191179000
		पूंजी	31794000000	0	31794000000
50	लघु जल संसाधन विभाग	राजस्व	2459548000	0	2459548000
		पूंजी	7850000000	0	7850000000
51	समाज कल्याण विभाग	राजस्व	80306677000	0	80306677000
		पूंजी	2078973000	0	2078973000
52	खेल विभाग	राजस्व	1831992000	0	1831992000
		पूंजी	0	0	0
योग राजस्व			2073434815000	226001246000	2299436061000
योग पूंजी			306560044000	223927173000	530487217000
महायोग			2379994859000	449928419000	2829923278000

## उद्देश्य एवं हेतु

राज्य की संचित निधि से कोई राशि भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 के अधीन बनी विधि के अनुसार ही विनियोजित की जायेगी, अन्यथा नहीं। विधि में यह व्यवस्था है कि

(क) विधान सभा द्वारा पारित किये गये अनुदानों, और

(ख) राज्य की संचित निधि पर भारत व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित कुल राशि राज्य की संचित निधि में से विनियोजित की जायगी।

वर्तमान विधेयक का उद्देश्य है कि राज्य की संचित निधि में से कुल 282992,32,78,000 (दो लाख बयासी हजार नौ सौ बानवे करोड़ बत्तीस लाख अटहत्तर हजार) रुपये, शोधन और विनियोग प्राधिकृत किया जाय, ताकि 31 मार्च 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष में शोधन के दौरान आने वाले भारों की पूर्ति की जा सके।

सम्राट चौधरी,  
भार-साधक सदस्य।

पटना  
दिनांक-28.02.2024

राज कुमार,  
सचिव,  
बिहार विधान सभा।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 173-571+10-डी0टी0पी0  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>